PARMESHWARI SILK MILLS LIMITED

Regd. Off: Village Bajra Rahon Road, Ludhiana-141007, Ph no.: +91-161-2691873, Email id: psmltex@gmail.com, Website: www.parmeshwarisilkmills.com CIN: L17116PB1993PLC012917

Date: 14.02.2025

Head- Listing Compliance
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400001

The Head Listing Compliance Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range, Dalhousie, Murgighata, BBD Bagh, Kolkata-700001

Security code: 540467 Scrip Code: 026501

Sub: <u>Disclosure under Regulation 47(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015-Newspaper Advertisement</u>

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 (1)(b) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, please find attached herewith Newspaper Advertisement w.r.t. Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 31th December 2024 approved at the Board meeting of the Company which was held on Wednesday, 12th Day of February, 2025 (commenced at **02:00 PM** and concluded at **04:45 P.M**) published in leading English Newspaper (Business Standard) and in Regional Language (Punjabi) Newspaper (Daily Suraj) editions.

Kindly take the above information on your records.

Thanking you, For Parmeshwari Silk Mills Limited

JATINDE Digitally signed by JATINDER PAL SINGH
Date: 2025.02.14
17:09:54 +05'30'

Jatinder Pal Singh Whole Time Director DIN: 01661864

Place: Ludhiana



महिंद्रा ऐंड महिंद्रा फाइनैंशियल

निदेशक मंडल ने राइट्स इश्यू 290 के जरिये 3,000 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी ₹ 276.0 पिछला बंद भाव ²⁷⁰ **₹ 282.6** आज का बंद भाव Feb 2025 Feb Feb 5 12 13 2.4 %



वीनस पाइप्स ऐंड ट्यूब्स वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 23 प्रतिशत घटा ₹ 1,336.6 पिछला बंद भाव ₹ 1,369.3 आज का बंद भाव

हर्ष इंजीनियर्स इंटरनैशनल 394.0 392.2

तीसरी तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ पिछले साल के मुकाबले १० प्रतिशत घटा ₹ 394.0 पिछला बंद भाव ₹ 392.2 आज का बंद भाव -0.5 % ▼

लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स .17.5 वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार 70.7 ₹ 70.1 पिछला बंद भाव पर 24 प्रतिशत बढ़ा ₹ 70.7 आज का बंद भाव 0.8 %

शिल्पा मेडिकेयर 780 आईएनडी नॉर-उर्सोडी ऑक्सी कोलिक एसिड टैबलेट के लिए मिली मंजूरी ⁶⁸⁰ **₹ 661.2** पिछला बंद भाव 661.2 _ 630 **₹ 680.0** आज का बंद भाव 2.8 %

श्रीलंका में पवन ऊर्जा परियोजनाओं से हटी अदाणी ग्रीन

अमृता पिल्लै मुंबई, 13 फरवरी

अदाणी ग्रीन एनर्जी ने गुरुवार को कहा कि उसके बोर्ड ने श्रीलंका में प्रस्तावित पवन ऊर्जा और ट्रांसमिशन परियोजनाओं से हटने का फैसला किया है और इस बात की जानकारी उस द्वीप देश को दे दी है।

मीडिया को भेजे बयान में अदाणी समूह की इकाई ने कहा, 'अदाणी ग्रीन एनर्जी ने श्रीलंका में आरई विंड एनर्जी प्रोजेक्ट और दो ट्रांसमिशन परियोजनाओं में आगे की बातचीत से अलग रहने के अपने बोर्ड के निर्णय से अवगत करा दिया है।'

बयान में कहा गया है कि हम श्रीलंका के प्रति उत्साहित बने हुए हैं और अगर श्रीलंका सरकार चाहेगी तो भविष्य में सहयोग के लिए तैयार हैं। अदाणी समृह जॉन कील्स और श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के साथ साझेदारी में कोलंबो में एक कंटेनर टर्मिनल भी बना रहा है।

संबंधित परियोजनाओं में 44.2 करोड़ डॉलर के निवेश के साथ मन्नार और पुनरिण में स्थापित की जाने वाली दो पवन ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं।

श्रीलंका के निवेश बोर्ड ने 2023 में जारी बयान में कहा था कि मन्नार में पवन ऊर्जा संयंत्र 250 मेगावॉट की क्षमता पर संचालित होगा जबकि पुनरिण में पवन ऊर्जा संयंत्र 100 मेगावॉट की क्षमता के साथ संचालित होगा और इसे 2025 तक चाल किया जाना था। श्रीलंका में समह की विद्यत परियोजनाओं को पिछले कुछ वर्षों से चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है।

वाहन निर्यात 40 प्रतिशत बढ़ा

सोहिनी दास और एजेंसी मुंबई, 13 फरवरी

•श के वाहन उद्योग ने साल की शुरुआत निर्यात में जोरदार वृद्धि के साथ की। जनवरी में यात्री वाहनों, दोपहिया और तिपहिया सहित सभी प्रमुख श्रेणी के निर्यात में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। जनवरी में कुल वाहन निर्यात पिछले साल जनवरी की तुलना में 40.2 प्रतिशत बढ़ गया।

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सायम) के आंकड़ों के मुताबिक इस महीने में यात्री वाहन निर्यात तकीबन 17 प्रतिशत बढ़कर 57,585 हो गया, जबकि दोपहिया निर्यात 46.2 प्रतिशत बढ़कर 3,80,528 और तिपहिया निर्यात करीब 20 प्रतिशत बढ़कर 23,859 हो गया।

जनवरी के दौरान देश में डीलरों को भेजी गई खेप तुलनात्मक रूप से नरम रही। यात्री वाहनों की खेप 3,99,386 (1.6 प्रतिशत की वृद्धि) पर स्थिर रहीं। दोपहिया वाहनों की खेप 2.1 प्रतिशत बढ़कर 15,26,218 हो गई और तिपहिया वाहनों की खेप में 7.7 प्रतिशत

निर्यात के मोर्चे पर कार निर्यात में पिछले साल की तुलना में करीब 13 प्रतिशत की गिरावट देखी गई जबकि युटिलिटी वाहन निर्यात जनवरी में करीब 61.5 प्रतिशत बढ गया। दोपहिया श्रेणी



में स्कूटर और मोटरसाइकल दोनों के निर्यात में इजाफा हुआ। इस महीने के दौरान स्कूटर में 23.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि मोटरसाइकल में 49.7 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। प्रमुख ओईएम (मुल उपकरण विनिर्माताओं) के बीच मारुति सुजूकी इंडिया और ह्युंडै मोटर इंडिया ने जनवरी के दौरान निर्यात संख्या में इजाफा देखा। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटरसाइकल ऐंड स्कटर इंडिया ने भी इस महीने निर्यात में

इसी तरह अप्रैल-जनवरी की अवधि के मामले में भी भारत से कल वाहन निर्यात करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ा है।

वृद्धि देखी।

इस अवधि में यात्री वाहन श्रेणी में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि दोपहिया श्रेणी में करीब 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई और तिपहिया श्रेणी स्थिर रही।

मारुति सुजुकी इंडिया और ह्युंडै मोटर इंडिया जैसे देश की प्रमुख यात्री वाहन निर्यातकों ने दिसंबर तिमाही (वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही) के दौरान मिला-जुला प्रदर्शन किया। जहां तक मारुति की बात है तो तिमाही के दौरान उसके निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 38.2 प्रतिशत की उछाल आई और यह बढ़कर 99,220 हो गया। असल में यात्री वाहन श्रेणी की इस दिग्गज ने कुछ प्रमुख बाजारों में पहले नई ई-विटारा के निर्यात

की योजना बनाई है। इसके बाद इसे भारत में बिक्री के लिए उतारा जाएगा। भारत में ई-विटारा का उत्पादन दुनिया भर के लिए होगा।

इस बीच ह्युंडै मोटर इंडिया ने तिमाही के दौरान निर्यात की संख्या में गिरावट देखी और यह घटकर 40,386 (वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही के 43,650 की तुलना में) रह गई। इस पर मुख्य रूप से लाल सागर और भू-राजनीतिक चुनौतियों का असर पड़ा, जिससे प श्चिमी एशिया और लैटिन अमेरिका के क्षेत्रों में इसका निर्यात प्रभावित हुआ।

टाटा डॉट ईवी दोगुने करेगी चार्जिंग पॉइंट

देश की अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता टाटा डॉट ईवी ने देश में ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे में विस्तार के लिए ईवी चार्जिंग पॉइंट साल 2027 तक दोगुना कर 4 लाख करने की महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है। अभी भारत में 18,000 सार्वजनिक चार्जर हैं जबकि 1.5 लाख प्राइवेट या होम/ऑफिस चार्जर हैं। इसके अलावा कुछ हजार कम्युनिटी चार्जर व ऑटो डीलरशिप के पास हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ चार्जर के उपयोग का स्तर पहले से ही बढ़ गया है। उपयोग की दरें (जो शुरू में 3-4 फीसदी थीं) अब कुछ प्रमुख स्थानों पर 20 फीसदी से ज्यादा हो गई हैं।

पृष्ठ 1 का शेष

फिलहाल ओपनएआई अपने डेटा सेंटर का परिचालन अमेरिका के टेक्सस से करती है। वहीं उसके अधिकतर सर्वर भी मौजूद हैं। मगर ओपनएआई दुनिया भर में मौजूद अपने तमाम उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की एज्योर क्लाउड का उपयोग करती है।

अगर भारत में डेटा सेंटर स्थापित

करने की ओपनएआई की योजना

साकार होती है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल होगा जहां कंपनी के कार्यालय के साथ-साथ डेटा सेंटर भी मौजूद हैं। ओपनएआई के टोक्यो, पेरिस, ब्रसेल्स, न्यूयॉर्क, सिएटल, सिंगापुर, सैन फ्रांसिस्को, लंदन और डबलिन में कार्यालय हैं। भारत ओपनएआई के लिए दुसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। यहां उसके उपयोगकर्ताओं की संख्या 2024 तक तीन गुना बढ़ चुकी है। कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी सैम ऑल्टमैन ने पिछले दिनों अपनी भारत यात्रा के दौरान यह बात कही थी। ऑल्टमैन 5 फरवरी को भारत दौरे पर आए थे। उन्होंने कहा, 'भारत में लोग स्टैक, चिप्स, मॉडल

ATA POWER-DDL

के सभी स्तरों पर एआई के साथ अदुभुत ऐप्लिकेशन बना रहे हैं।यह देखकर मुझे लगता है कि भारत को सबकुछ करना चाहिए। यह देखना वाकई आश्चर्यजनक है कि इस देश ने क्या किया है और इस प्रौद्योगिकी को किस प्रकार अपनाया है।'

एक दिन बाद बिज़नेस स्टैंडर्ड ने विशेष खबर दी थी कि ओपनएआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने दो अलग-अलग बैठकें की हैं। उनकी पहली बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और भारत में अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों के साथ हुई। दूसरी बैठक प्रौद्योगिकी नीतियों की वकालत करने वाले समूहों के साथ हुई थी जिसका आयोजन टीक्यूएच (द क्वांटम हब) द्वारा किया

दरवाजों के पीछे आयोजित इन दोनों बैठकों में ओपनएआई के उपाध्यक्ष (इंजीनियरिंग) श्रीनिवास नारायणन सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने कंपनी के उत्पाद एवं पेशकश के बारे में बताया था। साथ ही उन्होंने कंपनी की योजनाओं के लिए भारत के महत्त्व पर भी बात की थी।

सूत्रों ने उस समय बताया कि बंद

यूको बैंक UCO BANK

शाखा कार्यालय: रेड स्क्वेयर मार्केट,हिसार, हरियाणा

कब्जा सूचना परिश्ष्टि— IV (अचल संपत्ति के लिए) [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों , 2002 के नियम 8(1)के तहत]

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी यूको बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 की धारा 13(12) के सहपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में **दिनांक 12.11.2024 को मांग सूचना** जारी करते हुए धारा 13(2) के तहत **कर्जदार(रों)–(1. श्री विकास भार्गव** पुत्र <mark>सीताराम, 2. श्रीमती आरती जोशी पत्नी विकास भार्गव) हिसार (हरियाणा) (कर्जदारों)</mark> को सूचना में उल्लेखित देय राशि **रुपये** 11,77,264/- (रूपये ग्याराह लाख सतहत्तर हजार दौ सौ चौसठ मात्र) शामिल 30.10.2024 तक प्रभारित ब्याज संग 3 1.10.2024 से संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज और आकास्मिक व्ययों, लागतों, प्रभारों आदि, वसूली घटाकर, यदि कोई हो, पूर्ण भुगतान तक (इसके बाद 'प्रत्याभूत ऋण' से संदर्भित) उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर भुगतान करने की मांग की गई है।

कर्जदार देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, कर्जदार(रों)/गारंटरों और आम जनता को एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13(4) के सहपठित उक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस **फरवरी, 2025 के 11वें दिन** को निम्न वर्णित संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों / बंधककर्ताओं और आम जनता को एतदृद्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन न करें और उनके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का लेनदेन यूको बैंक, रेड स्क्वेयर मार्केट हिसार हरियाणा, को सूचना में उल्लेखित देय राशि **रुपये 11,77,264/— (रूपये ग्याराह लाख सतहत्तर हजार दो सौ चौसठ मात्र) शामिल 30.10.2024 तक प्रभारित ब्याज संग ३ १. १०.२०२४** से संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज और आकारिमक व्ययों, लागतों, प्रभारों आदि, वसुली घटाकर, यदि कोई हो, पूर्ण भुगतान तक (इसके बाद 'प्रत्याभूत ऋण' से संदर्भित) के प्रभार के अधीन होगा।

संपत्ति की अनुसूची

(यूको बैंक, रे ड स्क्वेयर मार्केट हिसार हरियाणा के साथ बंधक), मकान सं. 160 का दक्षिण भाग मापक 69 वर्ग गज और उस पर स्वतंत्र आवासीय निर्मित भवन धारक एमसीएच संपत्ति आईडी पी०1700921027 स्थित जवाहर नगर, विजय नगर कॉलोनी के पास हिसार श्री विकास भार्गव पुत्र श्री सीता राम द्वारा स्वामित्व।

दिनांक : 11.02.2025 स्थान : हिसार प्राधिकत अधिकारी, यको बैंक


सिटीगोल्ड क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड

CIN: L65921PB1993PLC013595 पताः कमरा नं. 555, 5वीं मंजिल, एलएसई बिल्डिंग फिरोज गांधी मार्केट लुधियाना, पंजाब, भारत, 141001

ईमेल आईडीः cgccl1993@gmail.com वेबसाइटः www.citygoldcreditcapitallimited.com (31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही हेतु अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्ति	तिमाही समाप्ति	नौ माह समाप्ति
41.		31-12-2024	30-09-2024	31-12-2024
		अलेखापरीक्षत	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित
1	परिचालन से कुल आय	5.92	6.029	17.783
2	कुल व्यय	7.473	4.405	14.582
3	कर और अपवाद मदों से पहले लाभ/(हानि)	-1.556	1.624	3.201
4	कर और अपवाद मदों के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)	-1.473	1.224	2.255
5	भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी	320.050	320.050	320.050
6	प्रति शेयर मूल्य	10.00	10.00	10.00
7	प्रति शेयर आय	-0.046	0.038	0.070
8	तरलीकृत	-0.046	0.038	0.070

नोटः ऊपर दिए गये विवरण सेबी (सचीकरण और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन. 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल तिमाही गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन) के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। ऊपर दिए गए स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की समीक्षा ऑडिट सिमित द्वारा की गई है और 13 फरवरी 2025 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में उन्हें मंजूरी दी गई है। और पूरा वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट www.citygoldcreditcapitallimited.com पर उपलब्ध है।





कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड

CIN No. U65990DL2017PLC322041

पंजीकृत पताः 701, सातवीं मंजिल, अग्रवाल कॉरपोरेट टावर प्लॉट नं. 23, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 001

कब्जा सूचना (अवल सम्पत्ति के लिए) [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

चूंकि कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड [CIN No. U65990DL2017PLC322041] के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के अधीन तथा धारा 13(12) के साथ पिठत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत ऋण खाता नम्बर HLNLAPAMB0007712 के संबंध में मांग सूचना दिनांकित 13.11.2024 जारी की गई थी, जिसमें कर्जदारों अजय कुमार पुत्र बलकार सिंह, बलकार सिंह पुत्र ज्योति राम, मंजु रानी पत्नी बलकार सिंह तथा राहल पुत्र बलकार सिंह को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर मांग सूचना में उल्लिखित कुल रकम दिनांक 13.11.2024 की स्थिति के अनुसार रु. 5,56,114/- (भारतीय रुपये पांच लाख छप्पन हजार एक सौ चौदह मात्र) के साथ दिनांक 14.11.2024 से ऋण अनुबंध के नियमों के अनुसार उस पर उपार्जित/उपार्जित होने वाले आगे से ब्याज तथा शुल्क की रकम चुकता करने को कहा गया था।

कर्जदार द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में असफल होने के कारण एतदद्वारा कर्जदार एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 13.02.2025 को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया गया है।

विशेष तौर पर कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा दिनांक 13.11.2024 की स्थिति के अनुसार रु. 5,56,114/- (भारतीय रुपये पांच लाख छप्पन हजार एक सौ चौदह मात्र) साथ में ऊपर उल्लेखित आगे के ब्याज तथा शुल्क की रकम के लिए कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ग्राम खुदाखुर्द, तहसील एवं जिला-अम्बाला, हदबस्त सं. 99, खाता सं. 641/815, खसरा सं. 26/12, जमाबंदी वर्ष 2019-20 के अनुसार अब सम्पत्ति खेवट सं. 754, खतौनी सं. 954, खसरा सं. 26//12 के अंतर्गत है, में स्थित 202 वर्ग यार्ड परिमाप का प्लॉट सं. 191 के साथ सभी अधिकारों (जो आम क्षेत्रों, सुविधाओं, सुखभोग, विकास अधिकार इत्यादि (जैसा लागू है) तथा वहां संलग्न सभी फर्निचर, फिक्सचरों, फीटिंगों तथा सामग्रियों के प्रयोग तथा दखल के अधिकार तक ही सीमित नहीं है सहित) का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा, जिसकी चौहदी निम्नानुसार हैं: पूर्व: 33 फीट भुजा तथा प्लॉट सं. 194, पश्चिम: 33 फीट भुजा तथा 22 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: 33 फीट भुजा तथा प्लॉट सं. 192, दक्षिण: 55 फीट भुजा तथा प्लॉट सं. 190.

दिनांकः 13.02.2025 स्थान: हरियाणा

अधिकृत अधिकारी कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड

CAPITAL INDIA

कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड

CIN No. U65990DL2017PLC322041

पंजीकृत पताः 701, सातवीं मंजिल, अग्रवाल कॉरपोरेट टावर प्लॉट नं, 23, डिस्टिक्ट सेंटर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 001 कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

[(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

चूंकि कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड [CIN No. U65990DL2017PLC322041] के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के अधीन तथा धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत ऋण खाता नम्बर HLNHFLAMB0007711 के संबंध में मांग सूचना दिनांकित 13.11.2024 जारी की गई थी, जिसमें कर्जदारों अजय कुमार पुत्र बलकार सिंह, बलकार सिंह पुत्र ज्योति राम, मंजू रानी पत्नी बलकार सिंह तथा राहुल पुत्र बलकार सिंह को कथित सुचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर मांग सुचना में उल्लिखित कुल रकम **दिनांक 13.11.2024** की स्थिति के अनुसार **रु. 6,58,384/- (भारतीय रुपये छह लाख** अनटावन हजार तीन सौ चौरासी मात्र) के साथ दिनांक 14.11.2024 से ऋण अनुबंध के नियमों के अनुसार उस पर उपार्जित/उपार्जित होने वाले आगे से ब्याज तथा शुल्क की रकम चकता करने को कहा गया था।

कर्जदार द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में असफल होने के कारण एतदद्वारा कर्जदार एवं आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 13.02.2025 को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया गया है।

विशेष तौर पर कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा दिनांक 13.11.2024 की स्थिति के अनुसार रु. 6,58,384/- (भारतीय रुपये छह लाख अनटावन हजार तीन सौ चौरासी मात्र) साथ में ऊपर उल्लेखित आगे के ब्याज तथा शुल्क की रकम के लिए कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ग्राम खुदाखुर्द, तहसील एवं जिला-अम्बाला, हदबस्त सं. 99, खाता सं. 641/815, खसरा सं. 26/12, जमाबंदी वर्ष 2019-20 के अनुसार अब सम्पत्ति खेवट सं. 754, खतौनी सं. 954, खसरा सं. 26//12 के अंतर्गत है, में स्थित 202 वर्ग यार्ड परिमाप का प्लॉट सं. 191 के साथ सभी अधिकारों (जो आम क्षेत्रों, स्विधाओं, सुखभोग, विकास अधिकार इत्यादि (जैसा लागू है) तथा वहां संलग्न सभी फर्निचर, फिक्सचरों, फीटिंगों तथा सामग्रियों के प्रयोग तथा दखल के अधिकार तक ही सीमित नहीं है सहित) का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा, जिसकी चौहदी निम्नानुसार हैं: पूर्व: 33 फीट भुजा तथा प्लॉट सं. 194, पश्चिम: 33 फीट भुजा तथा 22 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: 33 फीट भुजा तथा प्लॉट सं. 192, दक्षिण: 55 फीट भुजा तथा प्लॉट

दिनांकः 13.02.2025 स्थानः हरियाणा

अधिकृत अधिकारी कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड

निविदा सूचना आमंत्रित टाटा पावर-डीडीएल निम्न मदों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है: बोली जमा कराने की अंतिम तारीख और समय/ निविदा खोलने की तारीख और समय अनुमानित निविदा पूछताछ सं. लागत/धरोहर दस्तावेज जमा राशि (रु) TPDDL/ENGG/ENQ/200001778/24-25 13.84 Crs 07.03.2025;1500 Hrs. 14.02.2025 07.03.2025;1530 Hrs TPDDL/ENGG/ENQ/200001779/24-25 14.02.2025 07.03.2025;1500 Hrs/

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम रजि. आफिस : एनडीपीएल हाउस, हडसन लाइन, किंग्सवे केम, दिल्ली–110009

One-year Rate Contract for LAN Works in TATA POWER-DDL सम्पूर्ण निविदा एवं शद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध

OSBI

vebsite www.tatapower-ddl.com→Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents

70,000

परियोजना वित्त एवं संरचना व्यवसाय समूह, कॉरपोरेट केंद्र, चौथी मंजिल, मफतलाल केंद्र, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021 ई-मेल: dam.cmcpfsbu@sbi.co.in वेबसाइट: https://bank.sbi/. https://www.sbi.co.ir

न.: PF&S SBU/2024-25/01

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत, नियामक संबोधन, तकनीकी और परिचालन चुनौतियों का समाधान, ज्ञान भंडार का निर्माण एवं निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करवे उभरते क्षेत्रों को वित्तपोषित करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस (CoE) की स्थापना के लिए एव व्यापक ढांचे की रचना, विकास और कार्यान्वयन के लिए परामर्शदाता के पैनल के लिए पाउ बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं. विवरण के लिए, कृपया https://bank.sbi/

बोलियां दस्तावेज डाउनलोड करने की प्रारंभिक तिथि और समय: 14.02.2025 को 15:00 बजे से बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 15.03.2025 को 15:00 बजे तक

स्थान: मुंबई उप महाप्रबंधक (सीएमसी) परियोजना वित्त एवं संरचना व्यवसाय समूह दिनांक: 14.02.2025

परमेश्वरी सिल्कु मिल्स लिमिटेड पंजी. कार्यालय: गांव वाजराराहोन रोड, लुधियाना 141007Ph no.: +91-161-2691873, Email id: psmltex@gmail.com, Website: www.parmeshwarisilkmills.com CIN: L17116PB1993PLC012917

31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए समग्र अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 47(1)(बी)) (राशि ला

30.09.2024 (知可か知句) 4960.59 2.91 4963.50 277.81 268.08 205.87	31.12.2023 (3中華 (3年年) 5827.96 8.08 5836.04 222.70 225.87 153.47	31.12.2024 (细节降間) 17422.57 12.41 17434.98 887.87 874.03 656.19	31.12.2023 (第一章 (第1元) 15215.69 21.72 15237.41 608.59 601.53	31.03.2024 (新春市) 20338.53 51.00 20389.53 840.80 833.44 603.44
4960.59 2.91 4963.50 277.81 268.08	5827.96 8.08 5836.04 222.70 225.87	17422.57 12.41 17434.98 887.87 874.03	15215.69 21.72 15237.41 608.59 601.53	20338.53 51.00 20389.53 840.80 833.44 603.44
2.91 4963.50 277.81 268.08	8.08 5836.04 222.70 225.87	12.41 17434.98 887.87 874.03	21.72 15237.41 608.59 601.53 441.85	51.00 20389.53 840.80 833.44 603.44
4963.50 277.81 268.08 205.87	5836.04 222.70 225.87 153.47	17434.98 887.87 874.03 656.19	15237.41 608.59 601.53 441.85	20389.53 840.80 833.44 603.44
277.81 268.08 205.87	222.70 225.87 153.47	887.87 874.03 656.19	608.59 601.53 441.85	840.80 833.44 603.44
268.08 205.87	225.87 153.47	874.03 656.19	601.53 441.85	833.44 603.44
205.87	153.47	656.19	441.85	603.44
205.87	153.47	656.19	441.85	603.44
				003.44
300.11	300.11	300.11	300.11	300.11
-	-	-	-	-
	E 44	21.86	14.72	20.11
6.86				20.11
•	6.96	6.86 5.11	6.86 5.11 21.86	6.86 5.11 21.86 14.72

.... 1. जानकारी अर्थात् 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडलोन अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

The light of	3						
विवरण	31.12.2024 (तिमाही)	31.03.2024 (বার্ষিক)					
टर्न ओवर	6635.31	20306.44					
कर से पहले लाभ	306.47	809.75					
कर के बाद लाभ	225.01	596.49					

उक्त सेबी (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेज के साथ दायर तिमाही स्टैंडलोन और समग्र अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही स्टैंडलोन और समग्र अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.parmeshwarisilkmills पर भी उपलब्ध है।

परमेश्वरी सिल्क मिल्स लिमिटेड

हस्ता. / — जतिंदर पाल सिंह पूर्ण कालिक निदेशक दिनांक : 14.02.2025 स्थान : लुधियाना

The e-tender for the work "Construction of Jaunaji to Diyarang Bukharong road km 0/0 to 5/00 in District Solan HP under RIDF-XXX (NABARD) (SH: Improvement passing places, R/wall, CD works, GSB, WBM-II, WBM-III, tarring work, interlocking paver block, side drain and parapets.)" amounting to Rs. 6,63,67,497/- was invited vide this office letter No.PW.SD.CB-Tender/2024-25- 1207-16 dated: 22.01.2025 and further published in Giri Raj weekly. The key dates for downloading the bid was 10.02.2025 at 16:00 Hrs and the deadline for submission of bid was 20.02.2025 at 11:30 as per corrigendum No. 12812-20 dated 03.02.2025.

But due to technical/administrative reasons the aforesaid tender is hereby cancelled and recalled.

5173/2024-2025

Executive Engineer, Solan B & R Division. HPPWD, Solan,



IDBI BANK LTD Regd. Office - IDBI Tower, WTC Couffe Parade, Mumbai- 400005

Transfer of Stressed Loan Exposure

IDBI Bank Limited (Bank) intends to Transfer the Stressed Loan Exposure of ARSS Infrastructure Projects Ltd to the eligible permitted entities/ARCs [Transferees] on "as is where is", "as is what is", "whatever there is" and "without recourse" basis. Bank is proposing to undertake Bidding Process in 'all cash' basis to solicit binding bids in the form of irrevocable offers from Transferee(s) in accordance with the regulatory guidelines issued by the RBI and all other relevant applicable laws. For details please visit Bank's website www.idbibank.in. Click on Quick links> Notices & Tenders. For further details, you may contact at email- assignment@idbi.co.in.

Quick inflass inflass as tenders. To truther becaus, you may contact at email-assignment@idbi.co.in.

The Bank reserves the right not to go ahead with the proposet transfer at any stage without assigning any reason. Bank reserves the right to accept or reject any bids.

General Manager Corporate Office NPA Management Group ate- 14.02.2025



RENAISSANCE GLOBAL LIMITED

CIN L36911MH1989PLC054498

Regd Office: Plot Nos. 36A & 37, SEEPZ-SEZ, Andheri (East), Mumbai - 400 096.

UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE **QUARTER / NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024**

	(₹ in Lakhs)						
			Quarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Ended
Sr No.	Particulars	Dec 31, 2024 Unaudited	Sept 30, 2024 Unaudited	Dec 31, 2023 Unaudited	Dec 31, 2024 Unaudited	Dec 31, 2023 Unaudited	Mar 31, 2024 Audited
1	Total Income from Operations (net)	71,192.57	41,287.81	65,787.80	1,57,208.91	1,57,736.48	2,11,695.27
2	Net Profit before tax and Exceptional items	3,197.06	1,404.86	3,234.60	6,519.49	6,230.87	8,540.46
3	Net Profit after tax and Exceptional items	2,432.27	1,123.59	2,788.16	5,095.29	5,256.40	7,360.18
4	Total Comprehensive Income for the period / year	2,344.30	1,716.53	3,978.87	6,715.40	9,003.21	12,202.20
	[Comprising Profit/(Loss) for the period / year						
	(after tax) and other Comprehensive Income						
	(after tax)]						
5	Equity Share Capital (Face Value of ₹ 2/- each)	2,143.61	1,922.63	1,922.63	2,143.61	1,922.63	1,922.63
6	Earning Per Share EPS						
	(of ₹ 2/- each not annualised)						
	Basic	2.50	1.17	2.92	5.29	5.54	7.59
	Diluted	2.50	1.15	2.91	5.26	5.51	7.54

NOTES:

- The above unaudited consolidated financial results were reviewed by the Audit Committee at their meeting held on February 12, 2025 and
- approved by the Board of Directors at their meeting held on February 13, 2025. The above is an extract of the detailed format of quarterly / yearly financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirments) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financials results are available on the websites of Stock Exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.renaissanceglobal.com. Key numbers of Standalone Results are as under

(III Lakiis)						
	11110 111111111111111111111111111111111					Year Ended
Particulars	Dec 31, 2024 Unaudited	Sept 30, 2024 Unaudited	Dec 31, 2023 Unaudited	Dec 31, 2024 Unaudited	Dec 31, 2023 Unaudited	Mar 31, 2024 Audited
Revenue	49,513.79	32,521.39	42,935.11	1,12,184.62	1,04,779.42	1,39,607.73
Profit Before Tax	508.14	1,355.67	790.73	3,756.20	2,334.42	2,738.58
Profit After Tax	335.72	999.73	567.37	2,717.31	1,728.44	2,071.39
Total Comprehensive income for the period / year						
after tax	(825.50)	807.03	684.47	1,908.10	2,751.44	3,170.96
	G :::::					



For RENAISSANCE GLOBAL LIMITED

Darshil A. Shah Managing Director DIN No. 08030313



Place: Mumbai

Date: February 13, 2025

EXTREME ENGINEERING AND CONSTRUCTION



AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED Regd office: Afcons House, 16, Shah Industrials Estate, Veera Desai Road, Andheri(W), Mumbai 400053 www.afcons.com | CIN:L45200MH1976PLC019335

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

(₹ in Crores)

ı		CONSOLIDATED						
l		Q	uarter end	ed	Nine mo	nths ended	Year ended	
	Particulars	December 31, 2024 (Unaudited)	September 30, 2024 (Unaudited)	December 31, 2023 (Unaudited)	December 31, 2024 (Unaudited)	December 31, 2023 (Unaudited)	March 31, 2024 (Audited)	
ī	Total Income	3,332.27	3,089.58	3,182.04	9,635.32	9,837.39	13,646.88	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	199.83	190.68	178.48	525.96	465.94	672.62	
3	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	148.85	135.43	109.71	375.87	304.86	449.76	
4	Total Comprehensive Income for the period [(Comprising Profit/ (Loss)for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	107.79	143.21	111.22	338.31	317.95	449.10	
5	Equity Share Capital	367.78	340.74	71.97	367.78	71.97	340.74	
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in Balance Sheet)	_	-	-	_	-	3,235.27	
7	Earnings per equity share (Face value of ₹ 10 each) (quarterly & nine months ended EPS is not annualised) 1.Basic - (₹)	4.05	3.97	3.22	10.22	8.95	13.20	
	2. Diluted-(₹)	4.05	3.97	3.22	10.22	8.95	13.20	

Information of Standalone Unaudited Financial Results of the Company is as under:	

In	formation of Standalone Unaudite	ed Financia	l Results of	the Compa	any is as un	der:	(₹ in Crores)
		Q	uarter ende	ed	Nine mo	nths ended	Year ended
	Particulars	December 31, 2024 (Unaudited)	September 30, 2024 (Unaudited)	December 31, 2023 (Unaudited)	December 31, 2024 (Unaudited)	December 31, 2023 (Unaudited)	March 31, 2024 (Audited)
a)	Total Income	3,323.82	3,077.49	3,107.46	9,587.00	9,559.97	13,285.34
b)	Profit before tax	217.66	195.69	193.88	560.83	473.55	664.94
c)	Profit after tax	166.70	140.47	125.10	410.79	312.47	442.12

Notes:

(i) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the Quarter and nine months period ended December 31, 2024 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and Company's website at (www.afcons.com). (ii) The Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and nine months ended December 31, 2024

have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on February 13, 2025. The same also been subjected to Limited

Review by the Joint Statutory Auditors. The same can be accessed by scanning the QR Code provided below.

Place: Mumbai Date: February 13, 2025



For and On behalf of the Board of Directors Sd/-

Subramanian Krishnamurthy **Executive Vice Chairman** DIN: 00047592



the respective amount mentioned herein below.:

Equitas Small Finance Bank Ltd

(FORMERLY KNOWN AS EQUITAS FINANCE LTD)

Registered Office: No. 769. Spencer Plaza, 4th Floor, Phase-II, Anna Salai, Chennai - 600002

POSSESSION NOTICE (U/s. Rule 8 (1) - for immovable property) The undersigned being the Authorized Officer of Equitas Small Finance Bank. under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financials Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Sec. 13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notices calling upon the respective borrowers mentioned hereunder to repay the amounts mentioned in the respective notices U/s.13(2) of the said Act within a period of 60 days. The respective borrowers having failed to repay the said amounts, notice is hereby given to the borrowers, Guarantors and public in general that the undersigned has taken Physical possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under Sec. 14 of the SARFEASI Act, Vide its Case Securitization 2158-59

Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) Demand Notice Date and Amount Description of Secured Asset (Immovable Property) Date of All that pieces and parcels of non-agriculture property being Residential Property measuring00BighaBiswa3-2Biswasi i.e 8.88 Sq Yds. Bearing Khewat /Khatoni no 1.Mr.Deepak 1294/2854 comprised under Khasra no. 176//1(1-8),2(4-0),4/1(2-6),7/1(1-10),8(4-Kumar 2.Mrs. Bharti 02/01/2024),9(2-16),10(0-19),14/1/1(0-4) kitte09 , land measing 21 bigha 03 biswa share to extent of 3-1/2/8460 i.e 00 Bigha oo biswa3-1/2 biswasi i.e measuring 8.88 Sq yd 10/02/2025 886619 situated at vill lalru hadbast no.218,Thesil Derabassi & Distt. SAS NAGAR,Mohali Pb. North by shop at Mr.Rinku side 5ft, south by street side 5ft,east by shop at ajay SEIBADI0310506 Branch: BADDI clinic side 16 ft, west by peer baba ji side 16 ft. Measurement 8.88sq yards. As pe sale deed 8452 dated 25/1/2010 in the office of S.R.O Derabassi,SAS Nagar Punjab.

Order dated 17-9-24 passed by District Magistrate SAS Nagar Pb.. The respective borrowers in particular and public in general are hereby cautioned not to deal with the said properties and any dealing with these properties will be subject to the charge of the Equitas Small Finance Bank for

Date - 14-02-2025, Place - Mohali Authorized officer, Equitas Small Finance Bank Ltd



LIC HOUSING FINANCE LTD.

SCF 125, 2nd Floor, Distt. Shopping Complex, Ranjit Avenue, C-Block, Amritsar - 143001, Tel: 0183-2501095

SION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorized officer of LIC Housing Finance Ltd. under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of power conferred under section 13(12) read with Rule 9 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice as briefed under calling upon the Borrower(s), as briefed under to repay the amount mentioned in the notice being as briefed under + interest and other charges accrued thereupon within 60 days from the date of receipt of the said notice the Borrowers having failed to repay the amount notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken SYMBOLIC POSSESSION of the property described herein below, in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the said act read with Rule 9 of the said Rules, on the dates mentioned against each account.

The Borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of LIC Housing Finance Ltd. of an amount as briefed under

· Interest & other charges	accided thereupon	within 00 days	s iroi ir tire date	or receipt or trie said nor	ice.
Loan No., Name of the Borrower & Branch / Owner of the Property	Description of the Property Mortgaged (All that part and parcel of)	Date of Demand Notice	Date of Possession Notice	Amount Outstanding	Symbolic / Actual Physical Possession
311100001586 Manjit Kaur W/o Kultar	Motors, Umarpura Distt. Gurdaspur (F	Batala Garbi, , Jalandhar F Punjab) - 1435	Behind Baba Road, Batala, 505.	Rs. 12,80,120.97 (Rupees Twelve Lacs Eighty Thousand One Hundred Twenty and	taken on 11.02.2025
Singh (Applicant) AND Owner of the Property:-			o-Applicant).	Paisa Ninety Seven only)	

Amount outstanding amount as stated above plus further interest accrued and other charges from the date of demand **AUTHORISED OFFICER,** PLACE: AMRITSAR



BRANCH OFFICE: RED SQUARE MARKET, HISAR, HARYANA

POSSESSION NOTICE APPENDIX-IV (For immovable property) [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Whereas, The undersigned being the Authorized officer of the UCO Bank, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued Demand Notice dated 12.11.2024 under section 13[2] calling upon the Borrower[s] - (1. MR. Vikas Bhargaw S/o SitaRam , 2. Mrs. Arti Joshi W/o Vikas Bhargaw) Hisar [Haryana] [Borrowers] to repay the amount mentioned in the notice being Rs.11,77,264 [Rupeeseleven lakh seventy seven thousand two hundred sixty fouronly] including interest charged upto30.10.2024 with further interest at contracted rate w.e.f. 31.10.2024 and all incidental expenses, costs & misc. charges etc., less recovery, if any until payment in full | hereinafter referred to as 'secured debt'] within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to Borrower(s)/Guarantors and the public in General that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 11th day of february of the year 2025.

The Borrowers/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property mentioned below and any dealings with the property will be subject to the charge of UCO Bank, Red Square Market, Hisar, Haryana, for an amount of Rs.11,77,264 [Rupees eleven lakh seventy seven thousand two hundred sixty four only] including interest charged upto 30.10.2024 with further interest at contracted rate w.e.f. 31.10.2024 and all incidental expenses, costs & misc. charges etc., less recovery, if any until payment in full [hereinafter referred to as 'secured debt']

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of the time available, to redeem the secured assets.

Schedule of Property

vana) Southern portion of house no 160 (Mortgaged with UCO Bank, Red Square Market, measuring 69 sq.yards and independent residential building constructed thereupon bearing MCH property id no P01700921027 situated at jawahar nagar, near vijaynagar colony, Hisar owned by Mr. Vikas Bhargaw s/o Sh. Sita Ram

Date:- 11.02.2025 Place: Hisar Authorised officer, UCO Bank

PARMESHWARI SILK MILLS LIMITED

Regd. Off: Village BajraRahon Road, Ludhiana-141007, Ph no.: +91-161-2691873, Email id: psmltex@gmail.com, Website: www.parmeshwarisilkmills.com CIN: L17116PB1993PLC012917 Extract of the Consolidated Un-audited Financial Results for the Quarter Ended

December 31, 2024

(Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015) (Amt. in lakh)							
Particulars		Quarter Ende	ed	Nine Mo	nth Ended	Year Ended	
	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023		31.12.2023	31.03.2024	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
Revenue from operations	6766.36	4960.59	5827.96	17422.57	15215.69	20338.53	
Other Income	5.19	2.91	8.08	12.41	21.72	51.00	
Total Income	6771.55	4963.50	5836.04	17434.98	15237.41	20389.53	
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	363.87	277.81	222.70	887.87	608.59	840.80	
Net Profit / (Loss) for the period before Tax(after Exceptional and/or Extra ordinary items)	359.76	268.08	225.87	874.03	601.53	833.44	
Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	270.86	205.87	153.47	656.19	441.85	603.44	
Total Comprehensive Income for the period[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	270.86	205.87	153.47	656.19	441.85	603.44	
Equity Share Capital	300.11	300.11	300.11	300.11	300.11	300.11	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	•	•	,			-	
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations)-							
1. Basic	9.03	6.86	5.11	21.86	14.72	20.11	
2. Diluted	9.03	6.86	5.11	21.86	14.72	20.11	

Date: 14.02.2025

Place: Ludhiana

The information w.r.t. the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended December 31, 2024 are

Particulars	31.12.2024 (Quarterly)	31.03.2024 (Yearly)
Turnover	6635.31	20306.44
Profit before tax	306.47	809.75
Profit after tax	225.01	596.49

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Standalone and Consolidated Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange www.bseindia.com and on the website of the Company at www.parmeshwarisilkmills.com

For Parmeshwari Silk Mills Limited

Jatinder Pal Singh DIN: 01661864